

बेमौसम बारिश से कुछ फसलों को फायदा तो कुछ को नुकसान लेकिन ओले पड़े तो नुकसान अधिक होगा

महायोगी गोरखनाथ कृषि विज्ञान केंद्र चौकमाफी पीपीगंज गोरखपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष डॉक्टर आर.पी. सिंह ने बताया की आज जो बे मौसम बारिश हो रही है उसकी वजह से मौसम काफी खुशनुमा बना हुआ है कुछ किसानों के चेहरे खिले हुए हैं तो कुछ किसानों के चेहरे काफी मुरझाए हुए हैं। डॉ सिंह ने बताया कि जो किसान भाई गेहूं की बुवाई 20 से 25 दिन पहले कर दिए थे उनमें प्रथम सिंचाई ताज मूल अवस्था की आवश्यकता थी जिसकी पूर्ति इस बारिश से हो गई है इससे गेहूं की फसल को काफी फायदा होगा। जिन फसलों में फलियां लग चुकी हैं जैसे सरसों, मटर, टमाटर, बैंगन, धनिया, सेम, आदि में बारिश होने से काफी फायदा होगा। हल्की बारिश से चने व मसूर की फसल के लिए फायदा होगा, यदि अधिक बारिश होगी तो खेतों से पानी निकालने का प्रबंध करना चाहिए। जो किसान भाई गन्ना लगा दिए हैं उनके लिए यह बारिश काफी फायदेमंद है जबकि जिन फसलों में फूल आ रहा है जैसे दलहन, तिलहन, सब्जियों की फसल आदि के लिए काफी नुकसानदायक है। बेमौसम बारिश से हमारी अरहर, सरसों की फसल को नुकसान होगा। वारिस से फूल अधिक गिरते हैं फलियां कम लगती हैं उत्पादन प्रभावित होता है। आज की बारिश से रबी मक्का और प्याज की फसलों को फायदा होगा। बेमौसम बारिश एवं बदलते मौसम की वजह से आलू, टमाटर की फसल के लिए यह बारिश और मौसम नुकसानदायक है ऐसी दशा में आलू एवं टमाटर की फसल में पिछेती झुलसा रोग का प्रकोप अधिक होता है जिसके कारण आलू की फसल नष्ट हो जाती है और उत्पादन अधिक प्रभावित होता है। मौसम साफ होने पर आलू की फसल में झुलसा से बचाव के लिए रिडोमिल की 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। बदलते मौसम की वजह से फसलों में कीट और रोगों का प्रकोप अधिक होता है इससे निजात पाने के लिए किसान भाइयों को विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों से सलाह लेकर ही दवाओं का प्रयोग करना चाहिए।